



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6—मार्च 12, 2010 (फाल्गुन 15, 1931)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6—MARCH 12, 2010 (PHALGUNA 15, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जनवरी 2010

सं. एफ-15/10/2009/जीएन-6361/एएन-I--श्री लाल कृष्ण आडवाणी के लोक सभा में विपक्ष का नेता नहीं रहने पर निम्नलिखित व्यक्तियों, जिन्हें नीचे उल्लिखित पदों पर उनके वैयक्तिक स्टाफ में सह-विस्तारी आधार पर नियुक्त किया गया था, को 21.12.2009 से 4.01.2010 तक 15 दिन की परिसमापन अवधि स्वीकृत की जाती है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं:--

1. श्री दीपक चोपड़ा, लोक सभा में विपक्ष के नेता के सचिव
2. श्री जे. सी. जोशी, सहायक निजी सचिव
3. श्री सिद्धार्थ नैथानी, सहायक निजी सचिव

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सभा में विपक्ष के नेता के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में सह-विस्तारी आधार पर नियुक्त किया गया था, को 21.12.2009 से 19.01.2010 तक 30 दिन की परिसमापन अवधि स्वीकृत की जाती है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. एफ-15/10/2009/जीएन-6363/एएन-I--श्री लाल कृष्ण आडवाणी के लोक सभा में विपक्ष का नेता नहीं रहने पर श्री के. एस. सी. एस. वी. पी. गांधी, उप प्रबंधक, बीएसएनएल, कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली, जिन्हें लोक सभा में विपक्ष के नेता के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त/सह-विस्तारी आधार पर नियुक्त किया गया था, को 21.12.2009 से 4.01.2010 तक 15 दिन की परिसमापन अवधि स्वीकृत की जाती है।

2. इसके अतिरिक्त, दिनांक 10.10.1995 के आर एंड सी एस आदेश सं. प्रकीर्ण 54/95 द्वारा यथा अंगीकृत दिनांक 05.01.1994 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 2/29/91-स्था.(पे-II) के उपबंधों के

सं. एफ-15/10/2009/जीएन-6362/एएन-I--श्री लाल कृष्ण आडवाणी के लोक सभा में विपक्ष का नेता नहीं रहने पर श्री प्रकाश चन्द्र जिन्हें लोक

अनुसार, श्री के. एस. सी. एस. वी. पी. गांधी को 5 जनवरी 2010 से 5 मार्च, 2010 तक 60 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 6 और 7 मार्च, 2010 को शनिवार और रविवार की छुट्टी होने के कारण अंत में जोड़ने की अनुमति दी जाती है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग, अर्थात् बीएसएनएल, कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली को वापस सौंपी जाती हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 11 जनवरी 2010

सं. एफ-15/13/2009/जीएन-6364/एएन-I--निम्नलिखित व्यक्तियों को 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में संबंधित संसदीय समिति के सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है:--

क्र. सं.	नाम	समिति तथा सभापति का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री रमा शंकर पांडेय	ऊर्जा संबंधी समिति (श्री मुलायम सिंह यादव)	01.09.2009
2.	श्री रवीन्द्र कुमार	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति (श्री राव इंद्रजीत सिंह)	10.09.2009

2. उपर्युक्त व्यक्तियों की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और संबंधित समिति के वर्तमान सभापति के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम सम्बंधित समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2010

सं. एफ-15/08/2009/जीएन-6366/एएन-I--अध्यक्ष महोदया, सीमा सुरक्षा बल के एसआई/आर एम, श्री दिनेश चन्द्र पांडेय को 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति और सह-विस्तारी आधार पर माननीय उपाध्यक्ष, लोक सभा (श्री कड़िया मुंडा) के सहायक निजी सचिव के रूप में 4 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं।

2. माननीय उपाध्यक्ष, लोक सभा (श्री कड़िया मुंडा) के वैयक्तिक स्टाफ में श्री दिनेश चन्द्र पांडेय की नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और लोक सभा के वर्तमान माननीय उपाध्यक्ष के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. एफ-15/13/2009/जीएन-6367/एएन-I--श्री जसवंत सिंह के लोक लेखा समिति के सभापति पद से त्यागपत्र के परिणामस्वरूप राज्य सभा सचिवालय के वरिष्ठ कार्यकारी सहायक, श्री बृजभान सिंह, जिन्हें लोक लेखा समिति के सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति/सह-विस्तारी आधार पर नियुक्त किया गया था, को 1 जनवरी 2010 से 15 जनवरी 2010 तक 15 दिन की परिसमापन अवधि स्वीकृत की जाती है।

2. इसके अतिरिक्त, दिनांक 10 अक्टूबर 1995 के आर एण्ड सी एस आदेश सं. प्रकीर्ण 54/95 द्वारा यथा अंगीकृत दिनांक 05 जनवरी 1994 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 2/29/91-स्था.(पे-II) के उपबंधों के अनुसार, श्री बृजभान सिंह को 16 जनवरी, 2010 से 29 जनवरी 2010 तक 14 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 30 जनवरी और 31 जनवरी 2010 को शनिवार और रविवार की छुट्टी होने के कारण अंत में जोड़ने की अनुमति दी जाती है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग, अर्थात् राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली को वापस सौंपी जाती हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 19 जनवरी 2010

सं. एफ-15/01/2010/जीएन-6368/एएन-I--अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए पद और वेतनमान पर लोक सभा में विपक्ष की नेता (श्रीमती सुषमा स्वराज) के वैयक्तिक स्टाफ में सह-विस्तारी आधार पर 01 जनवरी 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं:--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वेतनमान
1.	श्री सतीश सी. गुप्ता	लोक सभा में विपक्ष की नेता के निजी सचिव	37,400—67,000/- रु. (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,700/- रुपये
2.	श्री कुलभूषण नागर	लोक सभा में विपक्ष की नेता के अतिरिक्त निजी सचिव	15,600—39,100/- रु. (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये

2. उपर्युक्त व्यक्तियों की लोक सभा में विपक्ष की नेता (श्रीमती सुषमा स्वराज) के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और लोक सभा में विपक्ष की वर्तमान नेता के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. एफ-15/01/2010/जीएन-6369/एएन-I--अध्यक्ष महोदया, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली में स्थानापन्न सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री विजय प्रकाश द्विवेदी को 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतनमान में लोक सभा में विपक्ष की नेता (श्रीमती सुषमा स्वराज) के वैयक्तिक स्टाफ में सहायक

निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति और सह-विस्तारी आधार पर 08 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करती है।

2. लोक सभा में विपक्ष की नेता (श्रीमती सुषमा स्वराज) के वैयक्तिक स्टाफ में श्री विजय प्रकाश द्विवेदी की नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और लोक सभा में विपक्ष की वर्तमान नेता के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. एफ-15/13/2009/जीएन-6370/एन-1--श्रीमती सुषमा स्वराज के विदेशी मामलों संबंधी समिति की सभापति पद से त्यागपत्र के परिणामस्वरूप श्री कुलभूषण नागर, जिन्हें सेवाधृति और सह-विस्तारी आधार पर उनके वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 31 दिसम्बर, 2009 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 27 जनवरी 2010

सं. एफ-15/01/2010/जीएन-6371/एन-1--अध्यक्ष महोदया, आयकर निदेशालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में अपर सहायक निदेशक, श्री अनिल कुमार दुबे को 15,600--39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतनमान में लोक सभा में विपक्ष की नेता (श्रीमती सुषमा स्वराज) के वैयक्तिक स्टाफ में सहायक निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति और सह-विस्तारी आधार पर 08 जनवरी, 2010 के अपराह्न से सहर्ष नियुक्त करती है।

2. लोक सभा में विपक्ष की नेता (श्रीमती सुषमा स्वराज) के वैयक्तिक स्टाफ में श्री अनिल कुमार दुबे की नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और लोक सभा में विपक्ष की वर्तमान नेता के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 फरवरी 2010

सं. एफ-15/13/2009/जीएन-6379/एन-1--निम्नलिखित व्यक्तियों को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में संबंधित संसदीय समिति के सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है:--

क्र. सं.	नाम	समिति तथा सभापति का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री रवि एम	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) (श्री ए.के.एस. विजयन)	07.10. 2009
2.	श्री गजेन्द्र शर्मा	विदेशी मामलों संबंधी समिति (श्री यशवंत सिन्हा)	06.01.2010

2. उपर्युक्त व्यक्तियों की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और सम्बंधित समिति के वर्तमान सभापति के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम संबंधित समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2010

सं. ए-12025/08/2007-प्रशा.-II--योजना आयोग की दिनांक 13 जुलाई, 2009 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्री राजेन्द्र सिंह की तदर्थ प्रतिनियुक्ति की अवधि, योजना आयोग में वेतन बैंड 2: 9,300--34,800/- रु. + ग्रेड वेतन 4,600/- रु. में आर्थिक अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन) (वर्ग "ख" राजपत्रित) के रूप में दिनांक 18.01.2010 से दिनांक 16.07.2010 तक छः माह के लिए अथवा नियमित पदधारी के उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 फरवरी 2010

सं. 181/6/2009--आयोग की दिनांक 29 जनवरी, 2010 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में, श्री एन.के. बार, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, संस्कृति मंत्रालय, जिनकी सेवाएं निर्वाचन आयोग को सौंपी गई थीं और जिन्हें दिनांक 15.01.2007 से प्रतिनियुक्ति के आधार पर पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (एल.आई.ओ.) के रूप में नियुक्त किया गया था, को एतद्वारा 12.02.2010 अपराह्न से निर्वाचन आयोग से इस निदेश के साथ निर्मुक्त किया जाता है कि वे दिनांक 01.02.2010 से 12.02.2010 तक के अर्जित अवकाश की समाप्ति के उपरांत संस्कृति मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाल लें।

नरेन्द्र नाथ बुटेलिया, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2010

सं. ए-12025/2/2008-वि.सा.प्र.(प्रशा.)--सचिव, विधायी विभाग संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री जी.सी. पन्त, नियमित कारबार कार्यपालक, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन को, तारीख 11 फरवरी, 2010 पूर्वाह्न से वेतन बैंड-2, 9,300--34,800/- रु. जमा ग्रेड वेतन 4,600/- रुपये में अगले आदेश तक प्रोन्नति के आधार पर सहायक प्रबंधक (समूह "ख" राजपत्रित) नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2010

सं. ए-32015/1/2010-प्रशा.-I (वि.वि.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में वरिष्ठ अनुवादक

श्री रवीन्द्र शर्मा को विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के उक्त खंड में, 9,300--34,800/- के वेतन बैंड + रुपए 4,600/- के वेतन बैंड-2 में, दिनांक 23 फरवरी, 2010 की पूर्वाह्न से चार माह की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो तदर्थ आधार पर अधीक्षक (अनुवाद) के रूप में कार्य करने के लिए, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति, श्री रवीन्द्र शर्मा को अधीक्षक (अनुवाद) के ग्रेड में न तो नियमित नियुक्ति का कोई हक प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु गिना जाएगा।

एम.आर. बीर, उप सचिव

#### विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2010

सं. ए-12026/3/2009-प्रशा-1 (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री आर. रघुपति, नियमित संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार संवर्ग का ग्रेड-1) को दिनांक 12 फरवरी, 2010 के पूर्वाह्न से विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में श्री डी. आर. मीना, भारतीय विधि सेवा द्वारा रिक्त किए गए स्थान पर स्थानापन्न रूप से अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

#### न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 फरवरी 2010

सं. के-11017/9/2009-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, न्यायविद् श्रीमती निर्मल यादव को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 24 फरवरी, 2010 को या उससे पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 11 फरवरी 2010

सं. के-11019/2/2010-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद्, श्री अजित प्रकाश शहा के सेवानिवृत्त हो जाने के परिणामस्वरूप, दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री मदन भीमराव लोकूर को दिनांक 13 फरवरी, 2010 से दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-11017/1/2010-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री निसार अहमद ककरू को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 12 फरवरी 2010

सं. के-13023/4/2009-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (1) न्यायविद् श्री रवि विजयकुमार मल्लिमठ और (2) न्यायविद् श्रीमती बेंगलूर वेंकटरामय्या नागरत्ना को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 15 फरवरी 2010

सं. के-13026/1/2009-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री टी. मतिवाणन, (2) श्री अर्धरिस्वामि आरुमुघस्वामि और (3) कुमारी के.बी.के. वासुकि को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-13026/4/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री बीरेन्द्र प्रसाद वर्मा और (2) श्री दिनेश कुमार सिंह को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए पटना उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

#### गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2010

सं. आई-14011/3/2009-आई.पी.एस.-1 (I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 15.02.2010 को चयन समिति की दिनांक 08.12.2009 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2007, 2008 एवं 2009 की उन चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग में वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 में क्रमशः 1, 5

एवं 2 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु असम पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :—

## चयन सूची-2007

अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
श्री बी. पी. गुप्ता	01.03.1950

## चयन सूची-2008

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	तजेन्द्र पॉल सिंह	03.01.1955
*2.	सैयद अताउल करीम	01.01.1956
3.	एन.एम.ए.एस.एफ.हक	17.10.1956
4.	अबिजित बोरा	01.09.1963
5.	बिष्णु प्रसाद रभा	05.09.1959

\*क्रम संख्या 2 पर दिए गए नाम को उन्हें राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निपटान किए जाने के अध्यधीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

## चयन सूची-2009

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
0A.	श्री सैयद अताउल करीम	01.01.1956
1.	श्री लचित बरुआ	01.02.1967
2.	श्री रौनक अली हजारिका	25.11.1967

\*क्रम संख्या 0A पर दिए गए नाम को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5(5) के द्वितीय उपबंध के अंतर्गत सूची में उसके सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निपटान किए जाने के अध्यधीन भी सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/3/2009-आई.पी.एस.-1 (II)---राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के

उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग प्रदान करते हैं :—

## चयन सूची-2007

अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
श्री बी. पी. गुप्ता	01.03.1950

## चयन सूची-2008

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	तजेन्द्र पॉल सिंह	03.01.1955
2.	एन.एम.ए.एस.एफ.हक	17.10.1956
3.	अबिजित बोरा	01.09.1963
4.	बिष्णु प्रसाद रभा	05.09.1959

## चयन सूची-2009

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
1.	श्री लचित बरुआ	01.02.1967
2.	श्री रौनक अली हजारिका	25.11.1967

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

दिनांक 22 फरवरी 2010

सं. आई-14011/26/2009-आई.पी.एस.-1 (I)---भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 10.02.2010 को चयन समिति की दिनांक 27.11.2009 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2009 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग में वर्ष 2009 में तीन मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :—

## चयन सूची-2009

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
1.	श्री सुनील कुमार हल्दर	02.09.1958
2.	श्री दीप शंकर रुद्र	23.11.1960
3.	श्री चिरंतन नाग	28.09.1965

क्रम संख्या 1 पर दिए गए नाम को उनके विरुद्ध अपराधिक मामले के निपटान किए जाने एवं उन्हें राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठ प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/26/2009-आईपीएस-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल संवर्ग प्रदान करते हैं:--

## चयन सूची-2009

क्रम. सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
1.	श्री दीप शंकर रुद्र	23.11.1960
2.	श्री चिरंतन नाग	28.09.1965

2. यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2010

सं. 14012/03/2007-अ. भा. से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग के 2003 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री अंकुर गर्ग को दिनांक 01.09.2005 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

शौकत अली, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2010

सं. 24012/32/2008-स्था. (ख)--राष्ट्रपति, सुश्री देबोलीना ठाकुर, आई. ए. एण्ड ए. एस. (98) बरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा.), महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, मेघालय, शिलांग को दिनांक 01 फरवरी, 2010 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए कर्मचारी चयन आयोग, गुवाहाटी में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सती मोहनदास, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2010

शुद्धि-पत्र

सं. ए-19011/14/2009-प्रशा.-1--श्री नरेन्द्र सिंह, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 72030) को इस विभाग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य के रूप में तैनाती से संबंधित इस विभाग की दिनांक 06.08.2009 की अधिसूचना सं. 61 (फा. सं. ए-19011/14/2009-प्रशा. 1) के संदर्भ में।

2. उक्त अधिसूचना में जहां कहीं भी अधिकारी का नाम आया है उसे "नरिन्दर सिंह" के रूप में पढ़ा व प्रतिस्थापित किया जाए। इस अधिसूचना की अन्य अंतर्वस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2010

सं. 11016/06/2008-आई. ई. एस.--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के 2004 बैच के निम्नलिखित ग्रेड-IV अधिकारियों (कनिष्ठ समय-मान) को उनके नाम के आगे उल्लिखित तिथियों से मूल पद के आधार पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3
1.	सुश्री निखिला मेनन	04.07.2007
2.	सुश्री गायत्री नायर	14.03.2007
3.	सुश्री शेफाली ढोंगरा	14.03.2007
4.	सुश्री प्रिया पी. नायर	14.03.2007
5.	सुश्री अर्चना नरेश	14.03.2007
6.	सुश्री अश्विनी लाल कोटस्थाने	14.03.2007
7.	सुश्री अतिरा एस. बाबू	14.03.2007
8.	श्री अश्विनी कुमार	14.03.2007
9.	श्री अभय कुमार	14.03.2007
10.	श्री अभिजीत फूकन	14.03.2007

1	2	3
11.	श्री सत्येन लामा	14.03.2007
10.	सुश्री रेणु लता	14.03.2007

जगदीश कुमार, अवर सचिव

## व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2010

सं. ए-12026/2/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, सी. एस. एस. के अधिकारी, श्री आर. एस. आर. मूर्ति (सी. एस. एल. सं. 5443) को ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची वर्ष 2006 के लिए संशोधित वेतन बैंड + ग्रेड वेतन अर्थात् पी बी-3, 15,600--39,100/- रुपए + 6,600/- में 01.07.2006 से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

सं. ए-12026/2/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, सी. एस. एस. के अधिकारी, श्रीमती भूमा एस. कुमार (सी. एस. एल. सं. 5356) को ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची वर्ष 2006 के लिए संशोधित वेतन बैंड + ग्रेड वेतन अर्थात् पी बी-3, 15,600--39,100/- रुपए + 6,600/- में 01.07.2006 से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

## विनिवेश विभाग

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 17 फरवरी 2010

सं. 9/3/2007-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 05.11.2009 के का.ज्ञा. सं. 18/3/2007-स्था. का. (एमएम-I) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सुश्री प्रीति नाथ (भारतीय आर्थिक सेवा : 1995) को विनिवेश विभाग में उप सचिव के पद पर और अब 05.11.2009 के पूर्वाह्न से 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 37,400--67,000/- रुपए के वेतनमान (पीबी-4) में उन्हें व्यक्तिगत पदोन्नति, केन्द्रीय भर्ती योजना के अन्तर्गत उनके कार्यकाल की शेष चार वर्ष की अवधि के लिए, जो 26.04.2012 तक होगी अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर पुनः पदनामित/पदोन्नत करते हैं।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 11 फरवरी 2010

सं. ए-12023/2/2009-प्रशा.-IV--राष्ट्रपति, श्रीमती लिजामा अगस्टिन, को 67,000--79,000/- रुपए के वेतनमान (वार्षिक वृद्धि @ 3%) में दिनांक 11.01.2010 के पूर्वाह्न से 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक या कम्पनी विधि बोर्ड के समाप्त होने तक और राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्यूनल

के गठन होने/कार्य आरंभ करने या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, कम्पनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली में सदस्य (न्यायिक) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. बी. कौशिश, अवर सचिव

सं. ए-12023/2/2009-प्रशा.-IV--राष्ट्रपति, श्री बी. एस. वी. प्रकाश कुमार, को 67,000--79,000/- रुपए के वेतनमान (वार्षिक वृद्धि @ 3%) में दिनांक 21.01.2010 के पूर्वाह्न से 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक या कम्पनी विधि बोर्ड के समाप्त होने तक और राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्यूनल के गठन होने/कार्य आरंभ करने या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, कम्पनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली में सदस्य (न्यायिक) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. बी. कौशिश, अवर सचिव

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2010

सं. 30 (ए-19011/02/2010-स्था.-I)--राष्ट्रपति द्वारा श्री ए. के. मंगोत्रा, भा.प्र.से. (एमटी : 78) को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में 67,000--79,000/- रु. के वेतन बैंड में दिनांक 2 फरवरी, 2010 पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक, अपर सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

## औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2010

सं. आई. 34011/10/2005-आर. टी. आई.--इस विभाग की दिनांक 06 अक्टूबर 2005 की अधिसूचना सं. एफ-23014/16/2005-व्य-III में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री आर. सी. गर्ग, निदेशक को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से संबंधित उन सभी मामलों के लिए जो उनके प्रभार में आते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

श्री सी. एम. नागराजन, उपसचिव जो इस विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, का नाम इस विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की सूची से हटा दिया गया है।

श्री एम. एस. धाकड़, निदेशक, जिन्हें यूनिडो-आईसीएएमटी परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, का नाम भी इस विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की सूची से हटा दिया गया है।

बाबू लाल, उपसचिव

## वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2010

सं. 1/2010 (ए-12022/10/2010-स्था.)--डॉ. जगदीप नारायण सिंह, आईएएस (गुज : 83), को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(एनएचएआई), नई दिल्ली में सदस्य (वित्त) के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर 1 फरवरी, 2010 के पूर्वाह्न से संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय के पद से कार्यमुक्त किया जाता है।

आदित्य कुमार, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2010

सं. 2/2010 (ए-12026/1/2000-स्था.)--आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 05 फरवरी 2010 के आदेश सं. टी-5/2010 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सुश्री ममता, आईईएस (2008) को 8 फरवरी, 2010 की पूर्वाह्न से अथवा अगले आदेशों तक वस्त्र मंत्रालय में पे बैंड-3 में 15,600--39,100/- रुपये + 5,400/- रुपये ग्रेड पे के वेतनमान में सहायक निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ टाईम स्केल) के रूप में नियुक्त करते हैं।

बलबीर सिंह, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2010

सं. ए-32011/1/2004-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07 जनवरी, 2010 के का.ज्ञा. सं. 5/8/2009-सीएस.1 (यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी. एस. एस.) के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित चयन सूची वर्ष के लिए 15,600--39,100/- के पे बैंड जमा 6,600/-रु. के ग्रेड पे में सी. एस. एस. का ग्रेड-I (अवर सचिव), नियुक्त करती है:--

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम	चयन सूची वर्ष
1.	श्री लालछंदामा	2005
2.	श्री अरूणोदय गोस्वामी	2005
3.	श्रीमती मीरा शेखर	2006
4.	श्री राजेश कुकरोती	2007
5.	श्री दिनेश कुमार राणा	2007
6.	श्रीमती ए. उषाबाला	2007
7.	श्री आर. एस. सिकंदर	2007
8.	श्री के. के. शर्मा	2007

बी. के. दत्ता, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2010

सं. 18/7/2007-ए.एस.ओ.--राष्ट्रपति, कोयला मंत्रालय में सलाहकार (परियोजना), श्री पी. आर. मंडल को कोयला नियंत्रक के कार्यालय, कोलकाता में कोयला नियंत्रक के पद के सौंपे गए अतिरिक्त कार्यभार की

अवधि को 31.12.2009 से 30.06.2010 तक अथवा इस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

शरद घोडके, निदेशक

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2010

सं. 11 (27)/2009-स्था.--इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार के रूप में कार्यरत जनरल सेंट्रल सर्विस केडर के श्री दीपेंद्र काशिवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2010 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जी. वैधीश्वरन, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2010

सं. ए-19011/188/2005-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्रीमती सावित्री एस. मणि को केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के नियम 12(2) तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-1 में पदोन्नति तथा सेलेक्शन ग्रेड) विनियम, 1964 के अंतर्गत दिनांक 01.07.2003 से तथा अगले आदेशों तक, अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. एस. बसरा, उप सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 16 फरवरी 2010

सं. ए-19011/3/2010-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री एस. के. शर्मा, वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

एस. के. नन्दा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2010

सं. ए-32012/1/2002-प्रशा.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.02.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/6/2009-सी एस-I (एस) के अनुसरण में, इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों की उपभोक्ता मामले विभाग में 9,300--34,800/- रुपए (पी बी-3) के वेतन बैंड + 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन में अनुभाग अधिकारी को पद पर तदर्थ नियुक्ति को 30.06.2010 तक की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, समय-समय पर सूचित तदर्थ



पदोन्नति की शर्तों और निबंधनों के अधीन आगे बढ़ाते हैं:—

क्र.सं.	सी एस एल सं.	नाम	अनुभाग अधिकारी के रूप में स्थानापन्न की तिथि
1.	383/91	श्रीमती शैलेश कुमारी	12.10.2006
2.	202/92	श्रीमती जनक बाला सहगल	31.10.2008(अपराह)
3.	91/93	श्री एस. आर. लूथरा	31.10.2008(अपराह)
4.	41/94	श्रीमती आर. के. पुरी	22.12.2008

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 4 फरवरी 2010

सं. ए-17016/02/95-आई.एफ.एस.-II--भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार असम, मेघालय और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों की सहमति से श्री बी. एन. एन. मूर्ति, आई. एफ. एस. (ए.एम : 2007) को असम-मेघालय संयुक्त संवर्ग से भारतीय वन सेवा के आन्ध्र प्रदेश संवर्ग में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करती है।

विवेक सक्सेना, निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110 108, दिनांक 16 फरवरी 2010

सं. ए-12025/178/2007-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. ज्योति मल को दिनांक 3 नवम्बर, 2009 के अपराह से अगले आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पी बी-3 (15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन 5,400/-रु.) के वेतनमान में अस्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं। डॉ. ज्योति मल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। डॉ. ज्योति मल नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 17 फरवरी 2010

सं. ए-12025/31/2007-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अस्वती आर. नायर को दिनांक 01 सितम्बर, 2009 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में (15,600--39,100/-+5,400/-रु. (पी बी-3) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करती है। डॉ. अस्वती आर. नायर को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. अस्वती आर. नायर अपनी नियुक्ति तिथि से दो वर्षों की परिवीक्षा पर रहेंगे।

माया प्रकाश, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2010

सं. ए-22012/2/2007-स्था.-I/(आयुष) (पॉर्ट)--सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आदेश सं. 12016/9/एसएजी/2008-आईएसएस (खण्ड-1) दिनांक 21.12.2009 के अनुसरण में, श्री राज कुमार, निदेशक (आईएसएस-1993) ने 37,400--67,000/- रुपये के वेतनमान + 8,700/-रुपये के ग्रेड वेतन में 21 जनवरी, 2010 (पूर्वाह) से आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

टी. एस. भाटिया, उप सचिव

दिनांक 4 फरवरी 2010

सं. ए-22012/01/99-(आयुष) (स्था.-II)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 27/47/2009-ईओ (एसएम-I) दिनांक 29 जनवरी, 2010 के अनुसरण में, श्री बी. आनंद (भा.प्र.से. तमिलनाडु : 87), संयुक्त सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यकाल 31.01.2010 के बाद तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया जाता है।

टी. एस. भाटिया, उप सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2010

सं. ए-38012/04/2009-प्रशा.-I--स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप महानिदेशक, डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी सोनार अधिवर्षितावय प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31.01.2010 (अपराह) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक प्रशा. (आर. के. के.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2010

सं. ए-32013/2/2009-ई.आई.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जनवरी, 2010 के.का.ज्ञा. सं. 5/8/2009-सी.एस.आई. (यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, इस विभाग में अवर सचिव के रूप में कार्यरत/सेवानिवृत्त केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित संगत चयन सूची वर्ष 1 जुलाई से नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करती है :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	सी.एस.एल. सं.	सलैक्ट लिस्ट
1	2	3	4
सर्वश्री			
1.	डी राम कृष्णा राव, अवर सचिव	5199	2004
2.	श्रीमती नीरा शर्मा, अवर सचिव	5201	2004

1	2	3	4
	सर्वश्री		
3.	जे. के. बन्धु, अवर सचिव	5718	2004
4.	डॉ. प्रवीन, अवर सचिव	4730-क	2005
5.	डॉ. के. डी. राव, अवर सचिव	5343	2005
6.	श्रीमती शिप्रा राय, अवर सचिव	5355	2005
7.	श्रीमती सुधा खन्ना, अवर सचिव	5381-क	2005
8.	एस.पी. थपलीयाल, अवर सचिव (रिटायर्ड)	5395	2006
9.	के. संजयन, अवर सचिव भारत सरकार	5472	2006
10.	तेरथजीत सिंह चावला, अवर सचिव	5507	2006
11.	ए. के. अरोरा, अवर सचिव	5626	2006
12.	नरेन्द्र कुमार, अवर सचिव	6242	2006
13.	ओम प्रकाश, अवर सचिव (रिटायर्ड)	6260	2006
14.	एस. भट्टाचार्य, अवर सचिव	5665	2007
15.	हर्ष प्रकाश, अवर सचिव	5959	2007
16.	एस. सी. रस्तोगी, अवर सचिव (रिटायर्ड)	6010	2008
17.	अशोक कुमार दास, अवर सचिव	6018	2008
18.	नीरज कुमार सिन्हा, अवर सचिव	6024	2008
19.	बी. बी. भगत, अवर सचिव	6044	2008

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

#### पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2010

सं. ए-19012/1/2007-स्था.--राष्ट्रपति जी ने श्री पी. के. बनर्जी, सी. एस. एस. कॉडर, को नियमित आधार पर (वर्ष 2006 की चयन सूची) पे बैंड-3 में 15,600--39,100/- रुपए + 6,600/- रुपए ग्रेड पे में अवर सचिव के तौर पर नियुक्त किया है। उपर्युक्त ग्रेड में उनकी नियुक्ति 01 जुलाई, 2006 से प्रभावी मानी जाएगी।

एल. हौकिप, अवर सचिव

#### संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2010

सं. ए-19011/5/2009-स्थापना--श्री एल. के. चावला का नाम वर्ष 2007 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) की चयन सूची के चयन ग्रेड में शामिल किए जाने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.12.2009 के आदेश संख्या 4/1/2009-सी.एस.-1 (डी) के जरिए संस्कृति मंत्रालय में उनकी तैनाती किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री एल. के. चावला ने 18 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से संस्कृति मंत्रालय में सी.एस.एस. के उप सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

वनिता सूद, अवर सचिव

#### सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2010

सं. डी-11020/1/2000-सामान्य-I--सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसरण में, श्री विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव को सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अंतर्गत 01 फरवरी, 2010 पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के "संपदा अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर. एस. मीना, निदेशक

#### जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2010

सं. 11036/13/2009-पी.सी. एंड वी.--इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 11036/9/2006-पी.सी. एंड वी. (2), दिनांक 14.07.2009 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 5(1) के संदर्भ में इस मंत्रालय के दिनांक 08.01.2010 के कार्यालय आदेश तथा उपरोक्त अधिसूचना के क्रम सं. 4 तथा 7 पर दर्शाए गए विशिष्ट मामलों के संबंध में श्री पी. के. डे, उप महानिदेशक तथा श्रीमती सुनीता, उपसचिव को श्री जी. सजीवन, निदेशक तथा श्री एस. एन. हलदर, उपसचिव के स्थान पर एतद्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री पी. के. डे तथा श्रीमती सुनीता का सरकारी पता एवं दूरभाष सं. निम्नानुसार है :--

(1) श्री पी. के. डे, उप महानिदेशक  
कमरा सं. 281, प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन,  
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली

(2) श्रीमती सुनीता, उपसचिव  
कमरा सं. 216-एच, "डी" विंग  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110015

2. उपरोक्त अधिसूचना के क्रम सं. 4 तथा 7 पर दर्शाए गए श्री जी. सजीवन, निदेशक तथा श्री एस. एन. हलदर, उपसचिव के नाम इस मंत्रालय से स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति के कारण हटाए गए समझे जाएं।

आर. एच. एच. हमर, अवर सचिव

#### संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 फरवरी 2009

सं. 2(6)/2006-का.-1--राष्ट्रपति जी ने 67,000--79,000/- रुपए (एच.ए.जी. वेतनमान) के वेतनमान तथा देय भत्तों पर डॉ. एन. विजयादित्य की प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक के रूप में नियुक्ति को 09.02.2010 से 04.10.2011 अर्थात् 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, अथवा अगले

आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रखने का अनुमोदन किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2010

सं. ए-38012/10/2009-स्था.--पोत परिवहन मंत्रालय से श्री कृष्ण चन्द्र (एस एल-2003), अनुभाग अधिकारी अधिवर्षिता की आयु में प्राप्त होने पर शासकीय सेवा से दिनांक 31.01.2010 (अपराह) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. एम. विजयन, अवर सचिव

दिनांक 16 फरवरी 2010

सं. ए-38012/10/2010-स्था.--पोत परिवहन मंत्रालय से श्री रघुनाथ त्रिपाठी, निदेशक (सी.एस.एल.सं.-3093), अधिवर्षिता की आयु में पहुंचने के कारण शासकीय सेवा से दिनांक 31.03.2010 (अपराह) से सेवानिवृत्त होंगे।

ए. एम. विजयन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2010

सं. ए-32011/2/08-एमए--राष्ट्रपति, नौवहन महानिदेशालय में कार्य कर रहे कैप्टन एस. के. शुक्ला, नॉटिकल सर्वेक्षक को दिनांक 13.11.2009 (पूर्वाह) से तथा अगले आदेशों तक नौवहन महानिदेशालय, मुंबई में 37,400--67,000/- रुपए + ग्रेड पे 8,700/- के वेतनमान में उप नॉटिकल सलाहकार-सह-वरिष्ठ उप महानिदेशक (तकनीकी) के पद पर नियुक्त करती है।

ए. आर. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-32012/2/08-एमए--राष्ट्रपति, सी.आई.एफ.एन.ई.टी. कोचीन में कार्य कर रहे श्री सी. रतीनादास, मुख्य अनुदेशक (समुद्री इंजीनियरिंग) को दिनांक 29.01.2010 (अपराह) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नौवहन महानिदेशालय, मुंबई में 15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड पे 7,600/- रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर, उप नौवहन महानिदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

ए. आर. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2009

सं. ए-32013/7/2009-ई-II (खंड)--राष्ट्रपति, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) समूह 'क' के

अधिकारी श्री निर्मलजीत सिंह को रुपए 26,000/- (नियत) (पूर्व संशोधित) के वेतनमान पर महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव के पद पर दिनांक 12.02.2010 से नियमित आधार पर तथा अगले आदेश तक नियुक्त करती है।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2010

सं. 06/2010-मि.सं. ए-38012/1/2008-प्रशा. एक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री पी. के. बत्रा जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में उप निदेशक (इंजीनियरी) के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 31 जनवरी 2010 के अपराह से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2010

सं. 7/7/2009-सी.जी.डब्ल्यू.बी.--राष्ट्रपति, श्री एन. वरदाराज, सहायक कार्यपालक अभियंता को 28.10.2009 से पदोन्नति पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में पीबी-3, 15,600--39,100/- रुपए + जी.पी. 6,600/- रु. के वेतनमान में कार्यपालक अभियंता के पद पर नियुक्त करती है।

एम. एन. सुकुमारन, अवर सचिव

सं. 7/7/2009-सी.जी.डब्ल्यू.बी.--राष्ट्रपति, श्री निधीश वर्मा, सहायक कार्यपालक अभियंता को 23.12.2009 से पदोन्नति पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में पीबी-3, 15,600--39,100/- रुपए + जी.पी. 6,600/- रुपए के वेतनमान में कार्यपालक अभियंता के पद पर नियुक्त करती है।

एम. एन. सुकुमारन, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2010

सं. ए-22017/1/2006-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07 जनवरी 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2009-सी. एस.-I के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-I (अवर सचिव) की वर्ष 2007 की चयन सूची में श्री जे. के. मजूमदार (सी.एस.एल. सं. 6429) को शामिल किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 21.01.2010 (पूर्वाह) से श्री जे. के. मजूमदार को नियमित आधार पर सी.एस.एस. के ग्रेड-I पर नियुक्त करती है।

2. श्री जे. के. मजूमदार की नियमित आधार अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में सी.डब्ल्यू.पी. सं. 13352/2005; कैट (सी.ए.टी.) नई दिल्ली में श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ ओ.ए. सं. 3294/2009 और श्री पी. एस. भंडारी बनाम भारत संघ और अन्य ओ.ए. सं. 2674/2009 के मामलों में अन्तिम निर्णय के अधधीन होगी।

के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 3rd January 2010

No. F-15/10/2009/GN-6361/AN-I.—Consequent upon Shri L. K. Advani ceasing to be the Leader of the Opposition in Lok Sabha, the following persons, who were appointed on his personal staff on co-terminus basis against the posts mentioned below, are granted winding-up period of 15 days w.e.f. 21st December, 2009 upto 4th January, 2010 and thereafter their services stand terminated :—

1. Shri Deepak Chopra, Secretary to Leader of the Opposition, Lok Sabha
2. Shri J. C. Joshi, Assistant Private Secretary
3. Shri Siddharth Naithani, Assistant Private Secretary

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. F-15/10/2009/GN-6362/AN-I.—Consequent upon Shri L. K. Advani ceasing to be the Leader of the Opposition in Lok Sabha, Shri Parkash Chander, who was appointed as Additional Private Secretary to the Leader of the Opposition, Lok Sabha on co-terminus basis is granted winding-up period of 30 days w.e.f. 21st December, 2009 upto 19th January, 2010 and thereafter his services stand terminated.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. F-15/10/2009/GN-6363/AN-I.—Consequent upon Shri L. K. Advani ceasing to be the Leader of the Opposition in Lok Sabha, Shri KSCSVP Gandhi, Deputy Manager of BSNL, Corporate Office, New Delhi who was appointed as Officer on Special Duty to the Leader of the Opposition, Lok Sabha on deputation/co-terminus basis, is granted winding-up period for 15 days w.e.f. 21st December, 2009 upto 4th January, 2010.

2. Further, in terms of provisions of Department of Personnel & Training OM No. 2/29/91-Estt.(Pay. II) dated 05.01.1994 as adopted vide R & CS Order No. Misc. 54/95 dated 10.10.1995, Shri KSCSVP Gandhi is granted Earned Leave for 60 days with effect from 5th January, 2010 upto 5th March, 2010 with permission to suffix 6th and 7th March, 2010 being holidays on account of Saturday and Sunday and thereafter his services are placed back at the disposal of his parent department viz. BSNL Corporate Office, New Delhi.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 11th January 2010

No. F-15/13/2009/GN-6364/AN-I.—The following persons are appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay

of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 6,600/- on the personal staff of Chairman of the respective Parliamentary Committee with effect from the date(s) as shown against each, until further orders :—

Sl. No.	Name	Name of the Committee and the Chairman	Date of Appointment
1.	Shri Rama Shankar Pandey	Committee on Energy (Shri Mulayam Singh Yadav)	01.09.2009
2.	Shri Ravindra Kumar	Committee on Information Technology (Shri Rao Inderjit Singh)	10.09.2009

2. The appointment of above mentioned persons to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of co-terminus with the term of the present Chairman of the respective Committee.

3. They will be designated as Private Secretary to the Chairman of the respective Committee.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 15th January 2010

No. F-15/08/2009/GN-6366/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint Shri Dinesh Chandra Pandey, ASI/RM of BSF as Assistant Private Secretary to Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha (Shri Karia Munda) in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP, Rs. 5,400/- on deputation and co-terminus basis with effect from the forenoon of 4th January, 2010 until further orders.

2. The appointment of Shri Dinesh Chandra Pandey on the personal staff of Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha (Shri Karia Munda) will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. F-15/13/2009/GN-6367/AN-I.—Consequent upon the resignation of Shri Jaswant Singh from the Chairmanship of Committee on Public Accounts, Shri Brij Bhan Singh, Senior Executive Assistant of Rajya Sabha Secretariat who was appointed as Private Secretary on the personal staff of Chairman, Committee on Public Accounts on deputation/co-terminus basis is granted winding-up period of 15 days w.e.f. 1st January, 2010 upto 15th January, 2010.

2. Further, in terms of provisions of Department of Personnel & Training OM No. 2/29/91-Estt.(Pay. II) dated 05.01.1994 as adopted vide R & CS Order No. Misc. 54/95 dated 10.10.1995, Shri Brij Bhan Singh is granted Earned Leave for 14 days with effect from 16th January, 2010 upto 29th January, 2010 with permission to suffix 30th January

and 31st January, 2010 being holidays on account of Saturday and Sunday and thereafter his services are placed back at the disposal of his parent department viz. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 19th January 2010

No. F-15/01/2010/GN-6368/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint the following persons on the personal staff of the Leader of Opposition, Lok Sabha (Smt. Sushma Swaraj) on co-terminus basis against the Post(s) and scale(s) of pay indicated against each with effect from 1st January, 2010 until further orders :—

Sl. No.	Name	Designation	Scale of Pay
1.	Shri Satish C. Gupta	Private Secretary to the Leader of the Opposition, Lok Sabha.	Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + GP Rs. 8,700/-
2.	Shri Kul Bhushan Nagar	Additional Private Secretary to the Leader of the Opposition, Lok Sabha.	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 6,600/-

2. The appointment of above mentioned persons on the personal staff of the Leader of the Opposition, Lok Sabha (Smt. Sushma Swaraj) will be on the tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Leader of the Opposition, Lok Sabha.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. F-15/01/2010/GN-6369/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint Shri Vijay Prakash Dwivedi, Officiating Assistant Administrative Officer in UPSC, Dhoolpur House, New Delhi as Assistant Private Secretary on the personal staff of the Leader of the Opposition, Lok Sabha (Smt. Sushma Swaraj) in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP, Rs. 5,400/- on deputation and co-terminus basis with effect from the forenoon of 8th January, 2010.

2. The appointment of Shri Vijay Prakash Dwivedi, on the personal staff of the Leader of the Opposition, Lok Sabha (Smt. Sushma Swaraj) will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Leader of the Opposition, Lok Sabha.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. F-15/13/2009/GN-6370/AN-I.—Consequent upon the resignation of Smt. Sushma Swaraj from the Chairmanship

of Committee on External Affairs, the services of Shri Kul Bhushan Nagar, who was appointed as Senior Private Secretary on her personal staff on tenure and co-terminus basis, stood terminated with effect from the afternoon of 31st December, 2009.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 27th January 2010

No. F-15/01/2010/GN-6371/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint Shri Anil Kumar Dubey, Additional Assistant Director in the Directorate of Income Tax, Ministry of Finance, Govt. of India as Assistant Private Secretary on the personal staff of the Leader of the Opposition, Lok Sabha (Smt. Sushma Swaraj) in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP, Rs. 5,400/- on deputation and co-terminus basis with effect from the afternoon of 8th January, 2010.

2. The appointment of Shri Anil Kumar Dubey on the personal staff of the Leader of the Opposition, Lok Sabha (Smt. Sushma Swaraj) will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Leader of the Opposition, Lok Sabha.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 3rd February 2010

No. F-15/13/2009/GN-6379/AN-I.—The following persons are appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 6,600/- on the personal staff of Chairman of the respective Parliamentary Committee with effect from the date(s) as shown against each, until further orders :—

Sl. No.	Name	Name of the Committee and the Chairman	Date of Appointment
1.	Shri Ravi M.	Committee on MPLADS (Lok Sabha) (Shri A.K.S. Vijayan)	07.10.2009
2.	Shri Gajender Sharma	Committee on External Affairs (Shri Yashwant Sinha)	06.01.2010

2. The appointment of above mentioned persons to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of co-terminus with the term of the present Chairman of the respective Committee.

3. They will be designated as Private Secretary to the Chairman of the respective Committee.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 19th January 2010

No. A-12025/8/2007-Adm.II.—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 13th July, 2009 the term of adhoc deputation in respect of Shri Rajendra Singh as Economic Officer (Project Appraisal) (Group 'B' Gazetted) in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,600/- in the Planning Commission is further extended for six months w.e.f. 18.01.2010 to 16.07.2010 or till the regular incumbent is reverted to his substantive post, whichever is earlier.

N. K. SHARMA, Under Secy.

## SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 12th February 2010

No. 181/6/2009.—In supersession of the Commission's Notification of even number dated 29.01.2010, Shri N. K. Bar, Assistant Library & Information Officer in the Ministry of Culture, whose services were placed at the disposal of the Election Commission and was appointed as Library & Information Officer (L&IO) on deputation basis w.e.f. 15.01.2007, is hereby relieved from the Election Commission in the afternoon of 12.02.2010, with a direction to report for duty to the Ministry of Culture, after completion of his Earned Leave w.e.f. 01.02.2010 to 12.02.2010.

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 15th February, 2010

No. A-12025/2/2008-VSP(A).—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the Secretary, Legislative Department hereby appoints Shri G. C. Pant, a regular Business Executive of the Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Assistant Manager (Group-B Gazetted) in the said Prakashan on promotion basis with effect from the forenoon of 11th February, 2010 until further orders in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,600/-.

KULDEEP KUMAR, Dy. Secy.

New Delhi, the 23rd February 2010

No. A-32015/1/2010-Admn. I (LD).—The President is pleased to appoint Shri Ravindra Sharma, Senior Translator (Hindi) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law & Justice to officiate as Superintendent (Translation) in the Pay Band-2 of

Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,600/- in the said Wing of the Legislative Department, Ministry of Law & Justice on ad hoc basis for a period of four months w.e.f. the forenoon of 23rd February, 2010 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. This adhoc appointment will not bestow on Shri Ravindra Sharma any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Superintendent (Translation) nor the ad hoc service rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

## DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th February 2010

No. A-12026/3/2009-Admn. I (LA).—The President is pleased to appoint Shri R. Ragupathi, a regular Joint Secretary and Legal Adviser (Grade I of the Indian Legal Service cadre of Legal Advisers) to officiate as Additional Secretary in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice in the vacancy of Shri D. R. Meena, ILS w.e.f. the forenoon of the 12th February 2010.

M. K. SHARMA, Jt. Secy. &amp; Legal Adviser

## DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 10th February 2010

No. K-11017/9/2009-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Smt. Nirmal Yadav, Judge of the Punjab & Haryana High Court, as a Judge of the Uttarakhand High Court and to direct her to assume charge of her office in the Uttarakhand High Court on or before 24th February, 2010.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 11th February 2010

No. K-11019/2/2010-US.II.—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President, is pleased to appoint Justice Shri Madan Bhimmarao Lokur, seniormost Judge of the Delhi High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 13th February, 2010 consequent upon the retirement of Justice Shri Ajit Prakash Shah, Chief Justice of the Delhi High Court.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K-11017/1/2010-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President, is pleased to appoint Justice Shri Nisar Ahmad Kakru, Judge of the Jammu & Kashmir High Court, to be the Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 12th February 2010

No. K-13023/4/2009-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President, is pleased to appoint (1) Justice Shri Ravi Vijaykumar Malimath, and (2) Justice Smt. Bangalore Venkataramiah Nagarathna, Additional Judges of the Karnataka High Court, to be Judges of that High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 15th February 2010

No. K-13026/1/2009-US.I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President, is pleased to appoint (1) Shri T. Mathivanan, (2) Shri Ardhanariswamy Arumughaswamy and (3) Miss K.B.K. Vasuki, to be Additional Judges of the Madras High Court, in that order of Seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K-13026/4/2008-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President, is pleased to appoint (1) Shri Birendra Prasad Verma and (2) Shri Dinesh Kumar Singh as Additional Judges of the Patna High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 19th February 2010

No. I-14011/3/2009-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 15.02.2010, approved the year-wise Select Lists of

2007, 2008 and 2009, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 08.12.2009, containing the names of the following State Police Service Officers of Assam, towards filling up 1, 5 and 2 substantive vacancies during 2007, 2008 and 2009 respectively in the Joint Assam-Meghalaya Cadre of IPS :—

#### SELECT LIST-2007

Name of the Officer	Date of Birth
Shri B. P. Gupta	01.03.1950

#### SELECT LIST 2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Tajendra Paul Singh	03.01.1955
*2.	Sayed Ataul Karim	01.01.1956
3.	N. M. A. S. F. Haque	17.10.1956
4.	Abijit Bora	01.09.1963
5.	Bishnu Prasad Rabha	05.09.1959

\*The Officer at Sl. No. 02 has been included in the list provisionally subject to grant of Integrity Certificate by State Govt. and clearance in the disciplinary proceedings pending against him.

#### SELECT LIST-2009

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
*0A.	Sayed Ataul Karim	01.01.1956
1.	Lachit Baruah	01.02.1967
2.	Raunak Ali Hazarika	25.11.1967

\*The Officer at Sl No. 0A has been included in addition to normal size of the list in accordance with the 2nd proviso to Regulation 5(5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955. He has also been included in the list provisionally subject to grant of Integrity Certificate by State Govt. and clearance in the disciplinary proceedings pending against him.

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/3/2009-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police

Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Assam Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Joint Cadre of Assam-Meghalaya under sub-rule (1) of the Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

## SELECT LIST-2007

Name of the Officer	Date of Birth
Shri B. P. Gupta	01.03.1950

## SELECT LIST-2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Tajendra Paul Singh	03.01.1955
2.	N. M. A. S. F. Haque	17.10.1956
3.	Abijit Bora	01.09.1963
4.	Bishnu Prasad Rabha	05.09.1959

## SELECT LIST-2009

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Lachit Baruah	01.02.1967
2.	Raunak Ali Hazarika	25.11.1967

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

The 22nd February 2010

No. I-14011/26/2009-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 10.02.2010, approved the Select List of 2009, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 27.11.2009, containing the names of the following State Police Service

Officers of West Bengal, towards filling up three substantive vacancies in the West Bengal Cadre of Indian Police Service during 2009 :—

## SELECT LIST-2009

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
*1.	Sunil Kumar Halder	02.09.1958
2.	Dip Sankar Rudra	23.11.1960
3.	Chirantan Nag	28.09.1965

\*The Officer at Sl. No. 1 is included provisionally subject to clearance of Criminal Proceedings and grant of Integrity Certificate by the State Government.

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/26/2009-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules 1954, read with sub-regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President, is pleased to appoint the following members of West Bengal Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Cadre of West Bengal under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

## SELECT LIST-2009

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Dip Sankar Rudra	23.11.1960
2.	Chirantan Nag	28.09.1965

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 18th February 2010

No. 14012/03/2007-AIS-III—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Ankur Garg, a member of the Indian Administrative Service, borne on the AGMUT cadre of 2003 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 01.09.2005.

SHAUKAT ALI, Under Secy.



New Delhi, the 16th February 2010

No. 24012/32/2008-Estt.(B)—The President is pleased to appoint Ms. Debolina Thakur, IA&AS (98), Senior Deputy Accountant General (Admn), Office of Accountant General (Audit), Meghalaya, Shillong as Regional Director, Staff Selection Commission, Guwahati with effect from 1st February, 2010 (Forenoon) for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

SATI MOHANDAS, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 10th February 2010

## CORRIGENDUM

No. A-19011/14/2009-Ad.I—Reference this Department's Notification No. 61 (F. No. A-19011/14/2009-Ad.I) dated 06.08.2009 appointing Shri Narender Singh, IRS (IT : 72030) as Member, CBDT in this Department.

2. The name of the officer where ever appears in the said Notification may be substituted and read as "NARINDAR SINGH". The other contents of the Notification remain unchanged.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

## DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 6th January 2010

No. 11016/6/2008-IES—The President is pleased to appoint the following Grade-IV Officers (Junior Time Scale) of Indian Economic Service of 2004 batch on substantive basis with effect from the dates indicated against their respective names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Confirmation
1.	Ms. Nikhila Menon	04.07.2007
2.	Ms. Gayatri Nair	14.03.2007
3.	Ms. Shefali Dhingra	14.03.2007
4.	Ms. Priya P. Nair	14.03.2007
5.	Ms. Archana Naresh	14.03.2007
6.	Ms. Ashwini Lal Kotasthane	14.03.2007
7.	Ms. Athira S. Babu	14.03.2007
8.	Shri Ashwini Kumar	14.03.2007
9.	Shri Abhay Kumar	14.03.2007
10.	Shri Abhijit Phukon	14.03.2007
11.	Shri Satyen Lama	14.03.2007
12.	Ms. Renu Lata	14.03.2007

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

## DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 23rd February 2010

No. A-12026/2/2010-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri R. Sita Rama Murthy, an officer of CSS (CSL No. : 5443) for regular appointment as Grade-I (Under Secretary) against the Select List Year 2006 in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Revised Pay Band + Grade Pay i.e. PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- with effect from 01.07.2006.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

No. A-12026/2/2010-Ad.I—The President is pleased to appoint Smt. Bhooma S. Kumar, an officer of CSS (CSL No. : 5356) for regular appointment as Grade-I (Under Secretary) against the Select List Year 2006 in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Revised Pay Band + Grade Pay i.e. PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- with effect from 01.07.2006.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

## DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 17th February 2010

No. 9/3/2007/Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officers') O.M. No. 18/3/2007-E.O.(MM-I) dated 5.11.2009, the President is pleased to appoint Ms. Preeti Nath (IES : 1995), Deputy Secretary and now re-designated/upgraded as Director in the Department of Disinvestment in the scale of pay or Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs. 8,700/-, with effect from the forenoon of 05.11.2009, as a measure personal to her for the balance period of her tenure of Central Deputation under Central Staffing Scheme which would be up to 26.04.2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 11th February 2010

No. A-12023/2/2009-Ad.IV—The President is pleased to appoint Smt. Lizamma Augustine, Member (Judicial) in the office of Company Law Board, Chennai in the Pay Scale of Rs. 67,000—79,000/- (Annual Increment @ 3%) with effect from the forenoon of 11th January, 2010 till she attains the age of 62 years or till the winding-up of the Company Law Board and the National Company Law Tribunal is constituted/operationalised or until further orders, whichever is the earliest.

J. B. KAUSHISH, Under Secy.

No. A-12023/2/2009-Ad.IV—The President is pleased to appoint Sh. B. S. V. Prakash Kumar, Member (Judicial) in the office of Company Law Board, New Delhi in the Pay Scale of Rs. 67,000—79,000/- (Annual Increment @ 3%) with effect from the forenoon of 21st January, 2010 till he attains the age of 62 years or till the winding-up of the Company Law Board and the National Company Law Tribunal is constituted/operationalised or until further orders, whichever is the earliest.

J. B. KAUSHISH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 2nd February 2010

No. 30(A-19011/2/2010-E.I)—The President is pleased to appoint Shri A. K. Mangotra, IAS (MT : 78) as Additional Secretary, in the Pay Band of Rs. 67,000—79,000/- in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, with effect from the forenoon of 2nd February, 2010 and until further orders.

R. K. MITRA, Director

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY &  
PROMOTION

New Delhi, the 17th February 2010

No. I-34011/10/2005-RTI—In partial modification of this Department's Notification No. F-23014/16/2005-E-III dated 06.10.2005, Shri R. S. Garg, Director is designated as Central Public Information Officers in terms of Section 5 (1) of the Right to Information Act, 2005 for all the matters under their charge in Department of Industrial Policy & Promotion.

Name of Sh. C. M. Nagarajan, Deputy Secretary who has retired on superannuation from this Department stands deleted from the list of Central Public Information Officers of this Department.

Name of Sh. M. S. Dhakad, Director who has been selected as Project Director of UNIDO-ICAMT Project also stands deleted from the list of Central Public Information Officers of this Department.

BABU LAL, Dy. Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 29th January 2010

No. 1/2010 (F. No. A-12022/10/2000-Estt.)—Dr. Jagdip Narayan Singh, IAS (GJ : 83), stands relieved of the post of Joint Secretary, Ministry of Textiles, with effect from the forenoon of 1st February, 2010, consequent on his appointment as Member (finance) in the National Highways Authority of India (NHAI), New Delhi.

ADITYA KUMAR, Director

New Delhi, the 10th February 2010

No. 2/2010 (F. No. A-12026/01/2000-Estt.)—Pursuant to Ministry of Finance Department of Economic Affairs Order No. T-5/2010 dated 05.02.2010, the President is pleased to appoint Ms. Mamta IES (2008) as Assistant Director (Junior Time Scale of Indian Economic Service) in the Pay Band-3 : Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Ministry of Textiles with effect from the forenoon of 8th February, 2010 and until further orders.

BALBIR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 3rd February 2010

No. A-32011/1/2004-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2009-CS.I(U) dated 7th January, 2010 the President is pleased to appoint the following Officers of the Central Secretariat Service (CSS) as Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- for the Select List Year mentioned against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Select List Year
1.	Sh. Lalchandama	2005
2.	Sh. Arunoday Goswami	2005
3.	Smt. Meera Shekhar	2006
4.	Sh. Rajesh Kukreti	2007
5.	Sh. Dinesh Kumar Rana	2007
6.	Smt. A. Ushabala	2007
7.	Sh. R. S. Sikdar	2007
8.	Sh. K. K. Sharma	2007

B. K. DATTA, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 16th February 2010

No. 18/7/2007-ASO.—The President is pleased to extend the period of additional charge of the post of Coal Controller in the Coal Controller's Organisation, Kolkata assigned to Shri P. R. Mandal, Adviser (Projects), Ministry of Coal for further period beyond 31.12.2009 and upto 30.06.2010 or till a regular incumbent to the said post is appointed or until further orders, whichever is earlier.

SHARAD GHODKE, Dir.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi-110107, the 3rd February 2010

No. 11 (27)/2009-Estt.—On attaining the age of superannuation Shri Deependra Kashiva an officer of General

Central Service cadre and working as Additional Industrial Adviser in the Ministry of Steel has retired on 31.01.2010 (AN).

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES**  
(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 18th February 2010

No. A-19011/188/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Savithri S. Mani, as Under Secretary under Rule 12(2) of the Central Secretariat Service Rules 1962 and the Central Secretariat Service (Promotion to Grade-I and Selection Grade) Regulations, 1964, w.e.f. 01.07.2003 and until further orders.

G. S. BASRAN, Dy. Secy.

**MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES**

New Delhi-110049, the 16th February 2010

No. A-19011/3/2010-Admn.—The President is pleased to permit Shri S. K. Sharma, Senior Inspecting Officer, Ministry of Food Processing Industries to retire from Government Service with effect from the afternoon of 31.01.2010 (AN) on his attaining the age of superannuation.

S. K. NANDA, Under Secy.

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION**  
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 18th February 2010

No. A-32012/1/2002-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/6/2009-CS.I(S) dated 08.02.2010, the president is pleased to extend the adhoc appointment of the following regular Assistants of CSS Cadre of this Department as Section Officer in the Department of Consumer Affairs in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 4,800/- for the period upto 30.06.2010 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier, subject to the terms and conditions of adhoc promotion intimated from time to time :—

Sl. No.	CSL No.	Name	Date from which officiating as SO on adhoc basis
1.	383/91	Smt. Shailesh Kumari	12.10.2006
2.	202/92	Smt. Janak Bala Sehgal	31.10.2008 (AN)
3.	91/93	Sh. S. R. Luthra	31.10.2008 (AN)
4.	41/94	Smt. R. K. Puri	22.12.2008

PREMA BHATT, Under Secy.

**MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS**

New Delhi-110003, the 4th February 2010

No. 17016/02/95-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government with the concurrence of the Governments of Assam, Meghalaya and Andhra Pradesh hereby transfer Shri B.N.N. Murthy, IFS (AM : 2007) from Assam-Meghalaya Joint Cadre to the Andhra Pradesh cadre of the Indian Forest Service with immediate effect.

VIVEK SAXENA, Director

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**  
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110108, the 16th February 2010

No. A-12025/178/2007-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Jyoti Mal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from afternoon of 3rd November, 2009 until further orders. Dr. Jyoti Mal is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi with effect from the same date. Dr. Jyoti Mal will be on probation for a period of two years from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

The 17th February 2010

No. A-12025/31/2007-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Aswati R. Nair to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- (PB-3) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 01.09.2009 until further orders. Dr. Aswati R. Nair is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Aswati R. Nair shall be on probation for two years from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

**DEPARTMENT OF AYUSH**

New Delhi, the 27th January 2010

No. A-22012/2/2007-E-I (AYUSH) (Pt.)—In pursuance of the Ministry of Statistics and Programme Implementation's Office Order No. 12016/9/SAG/2008-ISS(Vol. I) dated 21.12.2009, Sh. Raj Kumar, Director (ISS : 1993) has joined duties in the Department of AYUSH, Ministry of Health & Family Welfare w.e.f. 21st January, 2010 (forenoon) in the Scale of Pay of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/-

T. S. BHATIA, Dy. Secy.

The 4th February 2010

No. A-22012/1/99-AYUSH (E-II)—In pursuance of DoPT's Letter No. 27/47/2009 EO(SM-1) dated 29th Jan., 2010 the tenure of Shri B. Anand, (TN : 87) Joint Secretary in the Department of Ayurveda, Yoga, and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health & Family Welfare is extended for period of three months beyond 31.01.2010 or until further orders, whichever is earlier.

T. S. BHATIA, Dy. Secy.

## DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 19th February 2009

No. A-38012/4/2009-Admn.I—Dr. (Mrs.) Lakshmi Sonar, Deputy Director General of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31.01.2010 (A.N.)

R. K. KALRA, Dy. Dir. Admn. (RKK)

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 22nd January 2010

No. 32013/2/2009-E.I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 5/8/2009-CS.I (U), Dated the 7th January, 2010, the President is pleased to appoint the following officers of Central Secretariat Service (CSS), working/retired as Under Secretaries (ad hoc) in this Department, as Under Secretaries on regular basis w.e.f. 1st July of the respective Select List Year mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	C.S.L. No.	Select List Year
1	2	3	4
	(S/Shri)		
1.	D. Rama Krishna Rao, U.S.	5199	2004
2.	Smt. Neera Sharma, U. S.	5201	2004
3.	J. K. Bandhu, U. S. (Retired)	5718	2004
4.	D. Parveen, U. S.	4730-A	2005
5.	D. K. D. Rao, U.S.	5343	2005
6.	Smt. Shipra Roy, U. S.	5355	2005
7.	Smt. Sadhna Khanna, U. S.	5381-A	2005
8.	S. P. Thapliyal, U. S. (Retired)	5395	2006
9.	K. Sanjayan, U.S.	5472	2006
10.	Terathjit Singh Chawla, U. S.	5507	2006
11.	A. K. Arora, U. S.	5626	2006
12.	Narendra Kumar, U. S.	6242	2006

1	2	3	4
	(S/Shri)		
13.	Om Prakash, U. S. (Retired)	6260	2006
14.	S. Bhattacharya, U. S.	5665	2007
15.	Harsh Prakash, U. S.	5959	2007
16.	H. C. Rastogi, U. S. (Retired)	6010	2008
17.	Ashok Kumar Das, U. S.	6018	2008
18.	Niraj Kumar Sinha, U. S.	6024	2008
19.	B. B. Bhagat, U. S.	6044	2008

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 18th February 2010

No. A-19012/1/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Shri P. K. Banerjee of CSS as Under Secretary in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- on regular basis (Select List for the year 2006) and appointment to the said Grade may be deemed to have been made effective with effect from 1st July, 2006.

L. HAOKIP, Under Secy.

## MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 4th January 2010

No. A-19011/5/2009-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2007 and posting in the Ministry of Culture vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/1/2009-CS.I(D) dated 16th December, 2009, Shri L. K. Chawla has assumed the charge of Deputy Secretary of CSS in the Ministry of Culture w.e.f. the forenoon of 18th December, 2009.

VANITA SOOD, Under Secy.

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE &amp; EMPOWERMENT

New Delhi, the 2nd February 2010

No. D-11020/1/2000-General-I—In pursuance of the approval of the Competent Authority in the Ministry of Social Justice & Empowerment, Shri Vinod Kumar Sharma, Under Secretary is appointed as "Estate Officer" of the Ministry of Social Justice and Empowerment under the provisions of Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 w.e.f. forenoon of 1st Feb., 2010, until further orders.

R. S. MEENA, Dir.

## MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 15th February 2010

No. 11036/13/2009-PC&V—In partial modification of this Ministry's Notification No. 11036/9/2006-PC&V(ii) dated 14.07.2009 and in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri P. K. De, Deputy Director General and Smt. Sunita, Deputy Secretary are hereby designated as Central Public Information Officers, in place of Shri G. Sajeevan, Director and Shri S. N. Halder, Deputy Secretary respectively in respect of subject allocated to them vide this Ministry's office order dated 08.01.2010, and the specific subject matter indicated against Sl. No. 4 & 7 of the above said notification.

2. Shri P. K. De and Smt. Sunita's official address & Telephone No. is as under :—

- (i) Shri P. K. De, DDG  
Room No. 281, 1st floor  
August Kranti Bhawan  
Bhikaji Cama Place  
New Delhi.
- (ii) Smt. Sunita, DS  
Room No. 216-H, 'D' wing  
Shastri Bhawan, New Delhi-110015

3. The name of Shri G. Sajeevan, Director and Shri S. N. Halder, Deputy Secretary, since transferred/retired indicated against Sl. No. 4 and Sl. No. 7 respectively in the above said notification may be treated as deleted.

R. H. H. HMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 9th February 2010

No. 2(6)/2006-Pers. I—The President is pleased to approve the continuation of appointment of Dr. N. Vijayaditya as Controller of Certifying Authorities in the Pay Scale of Rs. 67,000—79,000/- (HAG Scale) + allowances for the period from 09.02.2010 to 04.10.2011 i.e. the date he attains the age of 65 years, or until further orders, whichever is earlier.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

## MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 9th February 2010

No. A-38012/10/09-Estt.—Sh. Krishan Chander (SL-2003), Section Officer in the Ministry of Shipping, on attaining the age of superannuation, has retired from Government Service on 31.01.2010 (AN).

A. M. VIJAYAN, Under Secy.

The 16th February 2010

No. A-38012/1/2010-Estt.—Shri Raghunath Tripathy, Director (CSL No. 3093) in the Ministry of Shipping, will be retiring from Government Service w.e.f. 31.03.2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

A. M. VIJAYAN, Under Secy.

New Delhi, the 4th February 2010

No. A-32011/2/08-MA—The President is pleased to appoint Capt. S. K. Shukla, Nautical Surveyor as Deputy Nautical Adviser-Cum-Sr. DDG (Tech.) in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- in the Directorate General of Shipping, Mumbai with effect from 13.11.2009 (FN) and until further orders.

A. R. SENGUPTA, Under Secy.

The 12th February 2010

No. A-32012/2/08-MA—The President is pleased to appoint Shri C. Rethinadhas, Chief Instructor (Marine Engineering), CIFNET Cochin, as Deputy Director General of Shipping in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- + GP of Rs. 7,600/- in the Directorate General of Shipping, Mumbai, on deputation basis for a period of five years with effect from 29.01.2010 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. R. SENGUPTA, Under Secy.

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT &amp; HIGHWAYS

New Delhi, the 15th February 2010

No. A-32013/7/2009-Estt. II (Part.)—The President is pleased to appoint Shri Nirmaljit Singh, an officer of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' as Director General (Road Development) & Special Secretary in the Pay Scale of Rs. 26,000/- (fixed) (Pre-revised) with effect from 12.02.2010 or until further orders, whichever is earlier in the Ministry of Road Transport & Highways.

D. R. SHARMA, Under Secy.

## MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 16th February 2010

No. 06/2010 (File No. A-38012/1/2008-Admn. I.)—Shri P. K. Bhadra, Deputy Director (Engineering) Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group -A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st January, 2010, on attaining the age of superannuation.

N. SRIRAMAN, Under Secy.

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 11th February 2010

No. 7/7/2009-CGWB—The President is pleased to appoint Shri N. Varadaraj, Assistant Executive Engineer as Executive Engineer on promotion in the Scale of Pay in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + G.P. of Rs. 6,600/- in Central Ground Water Board with effect from 28.10.2009.

M. N. SUKUMARAN, Under Secy.

No. 7/7/2009-CGWB—The President is pleased to appoint Shri Nidhish Verma, Assistant Executive Engineer as Executive Engineer on promotion in the Scale of Pay in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + G.P. of Rs. 6,600/- in Central Ground Water Board with effect from 23.12.2009.

M. N. SUKUMARAN, Under Secy.

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 3rd February 2010

No. A-22017/1/2006-Admn. I—Consequent upon inclusion of Shri J. K. Mazumdar (CSL No. 6429) in the Select List of 2007 for the Grade-I (Under Secretary) of the Central Secretariat Service (CSS) as per orders contained in the Department of Personnel & Training's OM No. 5/8/2009-CS.I dated 7th January, 2010, the President is pleased to appoint Shri J.K. Mazumdar to the Grade-I of CSS on regular basis w.e.f. 21.01.2010 (FN).

2. The appointment of Sh. J. K. Mazumdar to the Grade of Under Secretary on regular basis shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi; OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UoI in CAT, New Delhi; and OA No. 2674/2009 titled Shri P.S. Bhandari Vs. UoI & Ors.

K. G. MOHANTA, Under Secy